

**Itanagar Capital
Complex
Administration**

**GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
OFFICE OF THE EXTRA ASSTT. COMMISSIONER
NAHARLAGUN -791110**



NO.EAC-NLG/MISC-I/2019

Dated 22nd November 2019



TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that, **Rural Development Society**, is a registered NGO under Societies Registration Act vide Registration No.SR/ITA/349 Dated 28/02/1996, with its registered office at Barapani, PO & PS – Naharlagun, District- Papum Pare, Arunachal Pradesh. The society registration has been renewed up to 27th March 2022.

It is also certified that, **Rural Development Society** has not been blacklisted by any government department of Arunachal Pradesh.

(Ashok Tajo) APCS
EAC cum Executive Magistrate
Naharlagun Administrative Circle

**Extra Assistant Commissioner
Itanagar Capital Complex
Naharlagun**

**Itanagar Capital
Complex
Administration**

**GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
OFFICE OF THE EXTRA ASSTT. COMMISSIONER
NAHARLAGUN -791110**



NO.EAC-NLG/MISC-I/2019

Dated 22nd November 2019



TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that, **Rural Development Society**, is a registered NGO under Societies Registration Act vide Registration No.SR/ITA/349 Dated 28/02/1996, with its registered office at Barapani, PO & PS – Naharlagun, District- Papum Pare, Arunachal Pradesh. The society registration has been renewed up to 27th March 2022.

It is also certified that, **Rural Development Society** has not been blacklisted by any government department of Arunachal Pradesh.

**(Ashok Tajo) APCS
EAC cum Executive Magistrate
Naharlagun Administrative Circle**

**Extra Assistant Commissioner
Itanagar Capital Complex
Naharlagun**

स्वादी और ग्रामोद्योग कमीशन, मुम्बई
KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
MUMBAI

(ESTD. UNDER ACT LXI OF 1956)

(कानून ६१ सन् १९५६ द्वारा संस्थापित)

वस्त्र-स्वावलंबन, सूती, जूनी व रेशमी खादी तथा सरंजाम की उत्पत्ति
और खादी, सरंजाम व ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री के लिए



स्वादी और ग्रामोद्योग कमीशन
राष्ट्रीयकृत संस्थापक

यह प्रमाण-पत्र समय-समय पर निकाल जाने वाले प्रमाण-पत्र संबंधी नियमों और
अनुदेशों के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिबेट एवं अन्य आर्थिक
सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कमीशन अधिका
संबंधित बोर्ड संस्था के उत्पादन एवं बिक्री के लक्ष्यों की पूर्ति न दें।

प्रमाण-पत्र संख्या CCC/NV/226/003/Bihar/Pradesh/Nov/2001-2003

१. प्रमाण-पत्र चालू रहने की अवधि दि. _____
(यदि बीच में ही रद्द न किया गया तो) दि. 01-01-2003 to 31-03-2006
२. प्रमाण-पत्र पाने वाले का नाम _____
और पूरा पता Rural Development Society,
Damsite, Naharlagun,
Dist. Arunachal Pradesh
३. मुकदर उत्पत्ति क्षेत्र :
 १. स्वावलंबन खादी _____
 २. घंघाचारी खादी _____
 ३. सरंजाम _____
 ४. ग्रामोद्योग _____
४. मुकदर विशी क्षेत्र :
 १. भंडार _____
 २. एजेन्सी _____

स्थान : मुंबई/इलाहाबाद

स्वादी और ग्रामोद्योग कमीशन

OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUWAHATI-I, GUWAHATI

SAIKIA COMMERCIAL COMPLEX, 1ST FLOOR,
SREENAGAR, G.S.ROAD, GUWAHATI-781 005

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE I.T. ACT, 1961

Dated, Guwahati the 27th June, 2003

RURAL DEVELOPMENT SOCIETY, NAHARLAGUN as constituted by the Trust-Deed/Memorandum of Association dated 28.02.1996 has filed an application for registration under clause(a) of section 12A of the Income-tax Act, 1961 in the prescribed form on 25.04.2003. As the Trust/Institution was prevented by sufficient cause/not prevented by sufficient cause, in filing the application, the delay has been condoned/not been condoned. Registration is allowed from 01.04.2003 /not allowed.

The application has been entered at File No. I/12A/CIT/GHY-I/TECH/2003-04 of the Register of Application under section 12A(a) of the Income-tax Act, 1961.

COMMISSIONER OF INCOME TAX,



Sd/- (A. M. Sangma)

Commissioner of Income-tax, Guwahati-I, Guwahati.

Memo No. I/12A/CIT/GHY-I/TECH/2003-04/ 1412-12

Dated : 27.06.2003

Copy forwarded to :

- ✓ 1. The President, Rural Development Society, Naharlagun, Papum Pare, Arunachal Pradesh.
2. The Income-tax Officer, Ward-North Lakhimpur.
3. The Jt./Addl. Commissioner of Income-tax, Tezpur Range, Tezpur.

NOTE :

1. The Income of a Trust does not become exempt simply because the Trust is registered w/s 12AA by the CIT, unless the conditions of section 11 are fulfilled and also unless the provision of section 13 does not operate adversely of the case.
2. Section 12A constitute only an additional requirement to be fulfilled by Trust for getting exemption.

D.K. Sen
(D.K. Sen)

Income-tax Officer, Technical,
for Commissioner of Income-tax, Guwahati-I, Guwahati.

Form No. SR-2A

**CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER
THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860
[AS MODIFIED BY THE SOCIETIES REGISTRATION
(EXTENSION TO ARUNACHAL PRADESH) ACT, 1978]**
(See section 3)

No. SR/ITA/349

This is to certify that "RURAL DEVELOPMENT SOCIETY" with its registered office at NAHARLAGUN under PAPUM PARE District of Arunachal Pradesh has been registered under Section 3 of Societies Registration Act, 1860 [As modified by Societies Registration (Extension to Arunachal Pradesh) Act, 1978].

The Society has been established for the promotion of various charitable programmes and activities.

This certificate is valid from 28th February' 1996 and is renewed upto 27th March' 2022 only subject to subsequent renewal.

Date: 28/03/2019

Seal:




(Higio Tala) APCS
Registrar of Societies
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar
Registrar of Societies
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar